मुरादाबाद से प्रकाशित धातः वालीन र ह्येंहिंहि बर्ष:-03 अंक:-348 मुरादाबाद 12 April 2024 (Friday) भारत सरकार से रजिस्टर्ड पृष्ठ:-8 राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र RNI No.UPBIL/2021/83001 मूल्यः- 3.00 रूपया

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

# डमरू बजाकर प्रधानमंत्री ने लोगों ईदगाह पहुंचे अखिलेश,

# में ऊर्जा जगाई, बोले- ये उत्पाह मुबारकबाद दी... लखनऊ से

# 19 अप्रैल तक रखना



सुरासम्पूर्ण क लश रूधिराप्लुतमेव च।

दधाना हस्तपद्माभ्या

माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्माण्डा है। अपनी मंद, हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्माण्डा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्माण्डा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा-उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्माण्डा की उपासना मनुष्य को आधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाला का कूष्माण्डा का उपासना में हमेशा तत्पर रहना

आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल खेल मैदान में डमरु बजाकर उनके चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी उत्तराखंड आता हूं पुरानी यादें ताज़ा करता हूं। प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू करते ही मोदी-मोदी के नारे गूंजने लगे। जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी लोग कह रहे फिर एक बार मोदी सरकार। उत्साह 19 अप्रैल तक रखना- प्रधानमंत्री पीएम ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जिसने 10 साल कई काम किए। आतंकियों को घर में घुस कर मारा जाता है। ये मोदी की मजबूत सरकार है। महिलाओं को लोक व विधानसभा में आरक्षण दिया। वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया। उत्तराखंड में भी साढ़े तीन करोड़ से अधिक पूर्व सैनिकों को मिला है। संबोधन के दौरान मोदी-मोदी के नारे लगने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ना होती तो वन रैंक वन पेंशन

लोकसभा चुनाव 2024 की



चकाचक हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को विकसित करने में बड़ा योगदान है। कहा कि पर्यटकों का उत्तराखंड में पहुंचना आसान होना चाहिए। इसके लिए रोड कनेक्टिवटी बढ़ाई जा रही है।पीएम मोदी ने कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी नतीजे भी सही मिलते हैं। यहां बेटियां आगे बढ़ रही हैं।

देहरादून की दूरी सिमट रही है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, हमने उसे पहला गांव बनाकर विकास किया है। आदि कैलाश के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को भी सुगम बनाने की ओर सरकार काम

केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है।बीते वर्ष 55 लाख तीर्थयात्री यहां पहुंचे। मानसखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार का बढ़ना।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में हो रहे विकास में अब पलायन की कर रही है। यह सब इसलिए जड़ों को बीते दिनों की बात हो रहा भाजपा की नीयत सही बताया गया है। उत्तराखंड के कहा कि यहां ऋषिके श है। जब नीयत सही होती है तो नौजवानों ने स्टार्टअप शुरू किए।

# अयोध्या तक मनाया गया त्यौहार





कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। जिले की सभी मस्जिदों के अलावा अमेठी कस्बे के जामा मस्जिद पर हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ ईद की नमाज पढ़कर देश नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईंद की बधाई दी। अमेठी के जामा मस्जिद, गौरीगंज, जायस, अन्य मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाजियों ने कहा कि 30 दिन का रोजा रखने के बाद **ईद की नमाज पढ़ी जाती है। यह** बहुत ही खास मौका होता है जब हम अपने परिवार के साथ ईद नमाज के दौरान सीसीटीवी ईद की नमाज अदा की।

# पोएम मोदा न जताया दुख

महद्रगढ़ में ईद महेंद्रगढ़ में स्कूल बस पलटने से हड़कंप मच गया है। इस भीषण हादसे में छह बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का कारण वाहन को ओवरटेक करना बताया जा रहा है।महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में छह बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक-संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हरसंभव सहायता में जुटा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस दुर्घटना में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता-पिता एवं परिजनों को यह ऋर आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं घायल हुए बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हुं।हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने निजी अस्पताल में पहुंच कर 12 छात्रों का हाल-चाल जाना। इस दौरान उन्होंने सीमा त्रिखा ने कहा कि निजी स्कूल संचालक व्यापार करना बंद करें। कहा कि निजी स्कूल संचालक को नियमों का पालन करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ड्राइवर के साथ-साथ स्कूल के प्रिंसिपल व मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कहा कि ईद के अवकाश के दिन स्कूल खोलना गंभीर बात है। इसको लेकर प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई जाएगी।हादसे को लेकर उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की तरफ से घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की निगरानी में बेहतर उपचार हो रहा है। इस साथ ही डीसी ने स्कूल में था। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन पर कार्रवाई करने की चीख पुकार मच गई, इसी दौरान बात कही है। वहीं, बताया कि आसपास के लोगों एवं सड़क



की मान्यता को रद्द करने के लिए लिखा है।जीएलपी स्कूल कनीना की बस गांव सेहलंग, खेड़ी-तलवाना, खरकड़ा बास, धनौंदा रूट से करीब 43 बच्चों को बैठाया था। इसके बाद करीब 8=30 बजे जब गांव उन्हाणी के नजदीक स्थित महाविद्यालय के पास पहुंची तो मोड़ पर चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और पेड़ से टकराने के बाद बस पलट गई। कुछ प्रत्यदर्शियों का कहना है कि बस चालक शराब के नशे

चालकों ने मौके से बच्चों को बस से निकालकर अपने वाहनों में अस्पतालों में पहुंचाया। हादसे के बाद महज आधे घंटे में ही घटना स्थल पर 300 से अधिक लोग मदद को पहुंच गए। पुलिस ने गाड़ी चालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया। बच्चों को कनीना के एक निजी तथा उप नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चार बच्चों को मृत घोषित कर दिया जबिक हादसे के महज एक घंटे बाद ही गंभीर रूप से घायल दो बच्चों ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर ही चार बच्चों की मौत हो गई थी। बस चालक धर्मेंद्र निवासी सेहलंग को मेडिकल के लिए नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यक्षु, सत्यम व संदीप निवासी झाड़ली, वंश व दुष्यंत निवासी धनौंदा व युवराज की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चों को रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में कनीना की निजी अस्पतालों में उपचार के लिए एडमिट कराया गया है। हादसे पर पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला ने जताया दुख-पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महेंद्रगढ़ के उन्हानी गांव में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने का दुःखद

घायल होने की हृदय विदारक सूचना है।ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक बच्चों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें और घायलों को जल्द स्वस्थ करें। भगवान से प्रार्थना है कि बच्चों के परिवार को ये अपार पीड़ा सहने की शक्ति दें।केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जताया दुख-केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुःखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।एक निजी स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से घायल हुए एक छात्र का कहना है कि ड्राइवर नशे में था और उसने स्पीड 120 कर रखी थी, जिससे संतुलन बिगड़ गया और ये बड़ा हादसा हो गया।सीएम नायब सैनी ने कहा कि महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की घड़ी को सहन करने की हिम्मत स्थगित कर रहा हूं।

के निधन और कुछ बच्चों के

मनोहर लाल ने कहा कि कनीना हूं। इस मामले में प्रशासन जांच में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने करवाकर दोषियों पर सख्त का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। जिसमें कुछ बच्चों की सिंह हुड्डा ने कहा कि नारनौल असामियक मृत्यु होने और कुछ के उनहानी के पास स्कूल बस के घायल होने की सूचना है। मैं के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई सभी शोकसंतप्त परिवारों के प्रति वच्चों की दु-खद मृत्यु और कई अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरियाणा भाजपा के परिजनों के प्रति मैं गहरी प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने कहा कि महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कुछ बच्चों की असामयिक मृत्यु होने और कुछ के घायल होने का समाचार अत्यंत दु:खद है। मैं सभी गांव के पास हुई स्कूल बस शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट मृत्यु और कई बच्चों के घायल करता हूं और माता त्रिपुरसुन्दरी होने का समाचार सुनकर मन से घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ विचलित है। ईश्वर से प्रार्थना है होने की कामना करता हूं।कांग्रेस कि इस हादसे में घायल बच्चों नेता किरण चौधरी ने कहा कि को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान महेंद्रगढ़ के कनीना में एक निजी करें। राज्य सरकार व स्थानीय स्कूलों की बस की दुर्घटना की प्रशासन से अनुरोध है कि पीड़ित दुखद खबर मिली है। इस हादसे परिवारों एवं सभी घायलों को में जिन मासूमों की मौत हुई है मुफ्त उपचार सहित हर संभव उनके परिजनों के साथ हमार मदद मुहैया कराएं। इस दुर्घटना

सहायता के लिए मुस्तैद है।सभी

घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की

कामना करता हूं।पूर्व सीएम

में जो घायल है भगवान उन्हें जल्द स्वस्थ करें ये कामना करती कार्रवाई करें।पूर्व सीएम भूपेंद्र बच्चों के घायल होने की खबर पीड़ादायक है। इस हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बस दुर्घटना में घायल बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों।

राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नारनौल के उनहानी ्रदर्घटना में कई बच्चों की दुःखद गहरी सहानुभूति और संवेदना है, को देखते हुए आज के अपने भगवान परिवार को इस दुःखद चुनाव प्रचार कार्यऋम को मैं

# संपादकीय Editorial

# What a superpower-like standard of living?

As the general election season is in full swing the guarantee that Prime Minister Modi is giving to the country is that during his third term, India will become the third economic superpower of the world. The Prime Minister is assuring the nation that he is working 24 hours a day, seven days a week to fulfill the resolve of 'Developed India' in 2047. At present, India is the 5th largest economy in the world after America, China Japan and Germany. America's economy is more than 25 trillion dollars and China's economy is more than 19 trillion dollars India's GDP is around \$3.8 trillion, while Japan and Germany's GDP is more than \$4 trillion. Considering the pace at which the economic growth rate of Indian GDP is progressing, by 2028 it can become the third economic superpower, leaving behind Japan and Germany. India was the 10th economy in the world during the UPA government Jumping from there to become the 5th superpower is a great achievement. It is the citizens and industries of India who have achieved this beautiful, glorious place. Our average growth rate in 2014-15 was 5.9 percent, while during 2023-24 it has been less than 6.8 percent. We do not want to compare the growth rates during the tenures of different governments. It is also a situational situation that the growth rate keeps increasing or decreasing. During the global pandemic Corona virus, our economic growth rate sank to negative. India has come out of those circumstances and has remained firm on being the 5th superpower If the growth rates of Japan and Germany remain close to the current level, then India can soon achieve the position of third largest economy, but as important as the expansion of the economy, the issue of what will be the average standard of living of India is also important. Is? Is the standard of living of the average Indian like that of a superpower? India's per capita GDP is \$2500, which is much less than China's \$13,000. To put the situation and context in 1990, India's per capita GDP was \$369, while China was lagging behind us with \$348. Today China's economy is so advanced that India cannot even imagine touching it. After all, how China has gone so far ahead of us in three decades is a question worth pondering. The goal will not be achieved merely by raising slogans of 'Developed India'. Which Prime Minister will be accountable to the country in 2047? Will he carry forward the ideological line of the current Prime Minister? If different political parties are represented, no one will necessarily recognize the goal of 'developed India' There are many questions. Today elections can be won on this slogan, but it is a question of the basic development of the country. If India has to become a 'developed nation

in the coming two decades and these decades should be India's decades in terms of the global economy, then India will have to achieve the target of per capita GDP of \$ 10,000 at today's prices. These are more or less expectations. According to the World Bank definition, India is currently a 'lower middle income' country, while China is an 'upper middle income' country. China is almost on the verge of becoming a 'developed nation'. It is possible that India's GDP may be \$25-30 trillion in 2047 and the per capita income may also be much higher, but the standards of living are completely different What is the life expectancy and how much is being spent on health? However, the destination is still far away.


# **Expenditure Budget:** Challenges of Electoral Economics, Is Public Spending Really an Issue?

Election expenditure is a very small amount in the total expenditure budget of the Government of India, which is approximately Rs 45 lakh crore. Therefore, it is important to consider whether public spending on elections is really an issue. The process of elections for the eighteenth Lok Sabha has started and the first phase of voting is also going to take place in a few days. Candidates contesting elections with political parties are busy campaigning vigorously. Often, during election days, concern is raised about election expenditure and with the argument of increasing election expenditure, 'one nation, one election' is also being considered. As far as election expenditure is concerned, the direct public financial cost of conducting elections varies considerably globally and electoral costs vary between countries and even within countries. In general terms, the public expenditure by the Central Government on various elections in our country has increased at the rate of 19.98 percent per year. Statistics show that the cost of public expenditure of the central government on elections in the year 2017-18 was Rs 1322,22 crore, which has increased to Rs 2724,26 crore in the budget allocation for the year 2024-25. The highest level of public cost on elections so far has been recorded in the year 2022-23, which was Rs 3775.42 crore. This election expenditure includes six major items, which are as follows - expenditure on election officers, expenditure on preparation and printing of voter list, expenditure on conduct of elections to Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies, Legislative Council Expenditure to be incurred, expenditure to be incurred for conduct of Panchayat/Local Body elections, etc. and other election related expenses. As is clear from these broad items of public expenditure, these are mainly administrative expenses incurred by the Central Government for conducting elections. Election expenditure is a very small amount in the total expenditure budget of the Government of India, which is approximately Rs 45 lakh crore. Therefore, it is important to consider whether public spending on elections is really an issue. Let us now consider the economics of elections also. From the announcement of elections by the Election Commission to the formation of the new government after the elections, there is an unexpected increase in the expenses of the candidates contesting the elections. Increased election-related spending by candidates is often considered to boost consumption spending in the short run. The benefits of election spending on the consumer market in the short run vary and its economic impact depends on a number of factors, including the electoral nature of competition between different political parties. However, the nature of electoral competition has long-term effects on public finances. After the elections, the political party that wins and forms the government, the public policies initiated by that government have a wide impact on public expenditure. Such expenditure has long-term implications for growth, fiscal balance and human development. A very interesting example of a pre-poll promise translating into a large public spending commitment in recent years is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MNREGA) Act. We will find many examples of such prepoll promises which have not only increased public expenditure but also created new public policies. According to the first article of the Indian Constitution, there is a union of different states. Therefore, the electoral competition of national elections and state elections in a federal country should be different, especially when the role of the national government is very different from that of the state governments. However, in our own country India, the promises made by political parties fail to make this distinction. It is also difficult to understand this difference from political promises. Election promises, both at the Center and in the states, largely focus on redistributive spending to benefit households. Redistributive expenditure is that which is related to the equitable distribution of resources, hence in this matter the states are also dependent on the Center to some extent. As a result, the problem that arises is that after the elections, there arises a functional conflict in the responsibilities of the Central and State Governments. It can also be understood that the central and state governments work to provide the same type of service or facility. The division of resources and responsibilities between the Center and the states is clear in the Constitution. Given the constitutional division of resources, most redistributive spending on health, rural development and agriculture occurs at the state level. Ideally, state elections should be fought on such redistribution issues. Restoration of law and order is also a state subject. Therefore, state elections should be fought on the issues of law and order and governance. Whereas national elections should ideally be fought at an all India level on national issues such as infrastructure development, railways, defense and foreign affairs. But the reality in our country is completely different. However, this also cannot be said that national election promises have no role in addressing key redistributive concerns. What this basically means is that if the responsibilities assigned by the Constitution are included as fundamental principles in the election manifesto by the political parties, However, this also cannot be said that national election promises have no role in addressing key redistributive concerns. What this basically means is that if the responsibilities assigned by the Constitution are given a place as fundamental principles in the election manifesto by the political parties, then when the government is formed after the elections, the focus will be on fulfilling the election promises and There will be no problem in fulfilling such promises.

# Issue: In the era of climate change, discussion on 'Natural Bond' is necessary, when will we commit?

In the current crisis of climate change, when will we commit to the bond we have with nature? There is a huge shortage of natural resources in our country as per the population. Our country has 18 percent of the world's population, but we have only 2.4 percent of global land, two percent of forests and only four percent of clean water. In the future, as population pressure increases, these resources will further decrease. At the rate we are using natural resources now, by the year 2030 we will need 25 times more natural resources. Ecological threats are

increasing, this According to there is a 25 conflict in the there is a similar will increase by biodiversity, it is feared that also been India loses an year due to of Rs. This is meeting the (SDGs) has 121st position. a need for is this natural taking from in the same bond. If we Nature is not a with full due



will create an environment of instability. the Institute for Economics and Peace, if percent threat to food security, the risk of country will increase by 36 percent and if water shortage, then the incidents of conflict 18 percent. From the point of view of there are four hotspots in our country, but 90 percent of the area of these places has reduced. According to the United Nations, average of seven billion US dollars every natural disasters. There is an economic loss why in the last five years, India's ranking in UN's Sustainable Development Goals declined. In the year 2022, India was at In view of all these incidents, today there is commitment towards natural bonds. What bond? Whatever we have taken or are nature till now, we should return to nature proportion, this commitment is a natural cannot repay, we are debtors of this nature. financial institution, which gives us loans diligence. This entire universe operates

under the principle of co-existence. Nature is the basis of our life, but forgetting to repay its debt, we are running towards luxuries. What kind of earth will we hand over to our future generations? The Corona pandemic crisis has taught us what real wealth is. Man cannot progress by ignoring nature. There is no concrete policy or action plan in the country so far to combat climate change and the displacement caused by it and to provide social security to the affected people. This is why, according to an estimate, 4.5 crore people will be forced to migrate from their homes by 2050 due to climate disasters in India alone. In an era of climate change, the number of people migrating as a result of extreme weather events will triple the current number. The Global Climate Risk Index, 2021, an annual ranking by research group Germanwatch, places India among the top 10 countries most affected by climate change. Scientists say that due to the increasing global temperature, food prices are expected to increase by 3.2 percent annually by 2035. Not only this, it can also adversely affect the yield of crops. Scientists believe that due to changes in climate, the food plate of a common man may become more expensive. These days, preparations for the Lok Sabha elections are going on in full swing in the country. But what effect the rising global temperature and climate change will have on people's lives, and what action plan do political parties have to deal with it, is not the issue of this election debate. If seen seriously, this election is also very harmful from the environmental point of view. Therefore we cannot include the democratic structure of our country under green democracy. In the current climate change era, it is necessary that initiatives be taken to make the country a green democratic system, and indiscriminate exploitation of natural resources should be stopped. Development at the cost of environmental destruction will ultimately lead us to destruction. Therefore, there is a need to be alert in time and com

मुरादाबाद ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज बच्चे और बड़ों ने एक दूसरे को गले मिल दी ईद की मुबारकबाद

क्यूँ न लिखूँ सच

उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पहली बार ईदगाह मैदान में दो बार अदा हुई ईद उल फितर की नमाज़ पहली नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की गई दूसरी नमाज़ सुबह 9 बजे अदा की हुई पहली नमाज़ नायब शहर इमाम मुफ़्ती सय्यद फहद अली ने पढ़ाई दूसरी नमाज़ शहर ए इमाम सय्यद मसूम अली आज़ाद साहब ने पढ़ाई ईदगाह और उसके आसपास सड़को पर साल में दो बार ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर होती थी ईद की नमाज़, इस बार पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने पहले बैरिकेड लगाकर गलशहीद रोड बंद कर दिया गया दूसरा रोड बूढ़े का चौराहा भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया वहीं तीसरी और लाजपत नगर डबल फाटक पर भी बैरिकेड लगाकर इन सभी रोडो को पुलिस ने घेर लिया और कहीं से भी नमाजियों को अंदर ईदगाह की तरफ आने नहीं दिया गया जब तक पहेली नमाज अदा नहीं की गई तब तक नमाजियों को दूसरी नमाज में शिफ्ट नहीं होने दिया गया आपको बता दें सरकार द्वारा





सार्वजानिक मार्ग पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करने पर रोक लगने का हवाला देकर नायब शहर इमाम ने किया दो बार नमाज़ पढ़ाने का ऐलान इस मौके पर एसएसपी हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदोरिया, सभी थाने के एसएचओ सहित प्रशासनिक

अधिकारी मौजुद रहे वही ईदगाह मैदान में पहुंचे छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसमें उरहान ख्वाजा मोहम्मद हम्माद ,मो हुमैद ,हसन अली आदि कई लोग भी मौजूद रहे इस दौरान ईदगाह मैदान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में लगे सीविल डिफ़्रैन्स के लोगों का

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991 knlslive@gmail.com

# शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई ईद-उल-फितर की नमाज, डीएम-एसएसपी ने गले मिल दी बधाई



मुरादाबाद। आज ईद-उल-फितर धूमधाम से मनाई जा रही

गुरुवार को ईद की नमाज महानगर की ईदगाह समेत अन्य मस्जिदों में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाया और मुल्क की तरक्की व अमन-चैन के लिए दुआ की। बुधवार देर शाम शब्वाल महीने का चांद नजर आया तो घरों में ईद की तैयारियां तेज हो गई थीं। रोजदारों से लेकर बच्चे-बच्चे तक में ईद-उल-फितर का उत्साह देखते ही बन रहा था। गुरुवार को महानगर की ईदगाह, जामा मस्जिद में काफी संख्या में लोग पहुंचे और एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन बच्चे काफी उत्साहित दिखे। आए लोगों ने कहा कि मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं।

देश में तरक्की हो, खुशहाली हो और देश आगे बढ़े। इस मौके पर डीएम मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीना भी ईदगाह पहुंचे थे। इन अफसरों ने भी मुस्लिम वर्ग के वरिष्ठजन से गले मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। अधिकारियों से नमाजियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि अल्लाह से देश की तरक्की और अमन-चैन की दुआ की है। मुस्लिम समाज के लोग नए-नए परिधानों को पहन कर ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे थे। नमाज के बाद सभी ने एक-दूसरे से गले मिलकर अमन-चैन की दुआ

एक माह चले पवित्र रमजान के बाद बुधवार शाम ईद के चांद का दीदार हो हो गया था। इसलिए आज ईद मनाई जा रही है। जामा मस्जिद और जिले के अन्य हिस्सों की मस्जिद के आजाद ने मुल्क व तरक्री

लोग ईद की खरीदारी में मशगूल हो गए थे। मस्जिद के इमाम फहद अली व शाही मदरसे के मुफ्ती मोहम्मद जलील ने कहा कि ईद मोहब्बत का त्योहार है। इसे सभी धर्मों के लोगों को मिलकर जुलकर मनाना चाहिए। इमाम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों से मुल्क के लिए अमन व शांति की दुआएं करने के लिए कहा। उधर, बुधवार रात में चांद दिखने के बाद मुस्लिम घरों में ईद की शेष तैयारियां पूरा करना शुरू कर दिया था। बाजार में काफी देर शाम तक इत्र, टोपी, सेवइयां और दूसरे ड्राईफूट खरीदते दिखे। बाजारों में भीड़ बढ़ गई थी। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह आठ बजे तक ईदगाह का मैदान पूरी तरह से भर गया था। जिसके बाद नायब शहर इमाम मुफ्ती सैय्यद फहद अली ने ईद की नमाज अदा कराई। जिसके बाद शहर इमाम सैय्यद मासूम अली इमामों ने बुधवार देर शाम को दुआ कराई। दुआ के बाद शहर चांद देखे जाने की तस्दीक कर इमाम व नायब शहर इमाम ने दी थी। चांद देखे जाने के बाद सभी शहरवासियों व लोगों ने एक-दूसरे को गले अधिकारियों को ईद की

# संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

# मा० प्रेक्षकगणों ने ई०वी०एम० वेयर हाउस का किया निरीक्षण

मुरादाबाद - मा० सामान्य प्रेक्षक श्री कुमार राहुल एवं मा० पुलिस प्रेक्षक श्री रंजन कुमार शर्मा ने ई0वी0एम0 वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षकगण ने उपस्थित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री गुलाब चन्द, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

# मा० प्रेक्षकगण की अध्यक्षता में निर्वाचन संबंधी कलैक्टे उट सभागार में बैठक सम्पन्न

मुरादाबाद - मा० सामान्य प्रेक्षक श्री कुमार राहुल एवं मा० पुलिस प्रेक्षक श्री रंजन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टे उट सभागार में फोर्स डिप्लायमेंट, क्रिटीकल बूथ सहित अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक आहूत हुई। बैठक में प्रेक्षकगणों द्वारा प्रभारियों अधिकारियों के साथ ई0वी0एम0 कंट्रोल रुम, एम0सी0सी0 उल्लंघन, ऋिटीकल बूथ, सीजर रिपोर्टस सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारीगण नेर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दायित्वों का निवर्हन करें। बैठक में जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री गुलाब चन्द, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0⁄रा0 श्री सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री शशि भूषण, सिटी मजिस्टे उट किंशुक श्रीवास्तव, मुख्य कोषाधिकारी रेनू बौद्ध, उपजिलाधिकारी कांठ, उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी ठाकुरद्वारा, बदोवस्त अधिकारी चकबंदी सहित मा0 प्रेक्षक के लाईजन आफिसर श्री राजेश्वर प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें। ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण माहौल में

गले मिल दी ईद की मुबारकबाद क्यूँ न लिखूँ सच -सिकंदर अली

संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज

बच्चे और बड़ों ने एक दूसरे को

मुरादाबाद- उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पहली बार ईदगाह मैदान में दो बार अदा हुई ईद उल फितर की नमाज़ पहली नमाज़ सुबह 8 बजे अदा की गई दूसरी नमाज़ सुबह 9 बजे अदा की हुई



पहली नमाज़ नायब शहर इमाम मुफ़्ती सय्यद फहद अली ने पढ़ाई दूसरी नमाज़ शहर ए इमाम सय्यद मसूम अली आज़ाद साहब ने पढ़ाई ईदगाह और उसके आसपास सड़को पर साल में दो बार ईंद उल फितर और ईंद उल अजहा के मौके पर होती थी ईंद की नमाज़, इस बार पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने पहले बैरिकेड लगाकर गलशहीद रोड बंद कर दिया गया दूसरा रोड बूढ़े का चौराहा भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया वहीं तीसरी और लाजपत नगर डबल फाटक पर भी बैरिकेड लगाकर इन सभी रोडो को पुलिस ने घेर लिया और कहीं से भी नमाजियों को अंदर ईदगाह की तरफ आने नहीं दिया गया जब तक पहेली नमाज अदा नहीं की गई तब तक नमाजियों को दूसरी नमाज में शिफ्ट नहीं होने दिया गया आपको बता दें सरकार द्वारा सार्वजानिक मार्ग पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करने पर रोक लगने का हवाला देकर नायब शहर इमाम ने किया दो बार नमाज़ पढ़ाने का ऐलान इस मौके पर एसएसपी हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदोरिया, सभी थाने के एसएचओ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे वही ईदगाह मैदान में पहुंचे छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसमें उरहान ख्वाजा मोहम्मद हम्माद ,मो हुमैद ,हसन अली आदि कई लोग भी मौजूद रहे इस दौरान ईंदगाह मैदान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में लगे सीविल डिफ़ैन्स के लोगों का भरपूर सहयोग रहा

# क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामा, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

## सब लोग मिलकर ईद मनाएं। लगाकर बधाई दीं। इसके बाद मुबारक बाद पेश की। मुरादाबाद मंडल में सपा-बसपा का किला ढहाने की कोशिश में जुटी भाजपा, गठबंधन की नहीं हूई अभी कोई सभा

मुरादाबाद-समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गढ़ रहे मुरादाबाद मंडल की छह लोकसभा सीटों पर इस बार आम चुनाव में भाजपा की निगाह गड़ गई है। भाजपा नेता इन सीटों को जीतने के लिए कड़ी मेहनत में जुटे हैं। वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में हर रोज जनसभाएं कर रहे हैं। इस बार इन सीटों पर भाजपा को राष्ट्रीय लोकदल का भी साथ मिला है। मंडल में बिजनौर की नगीना सीट से भाजपा-रालोद के संयुक्त प्रत्याशी ओम कुमार और बिजनौर सीट से रालोद के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान चुनाव मैदान में हैं। इसलिए जयंत चौधरी भी बिजनौर और अमरोहा में जनसभाएं कर चुके हैं। इस बार नगीना सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। लेकिन इन मंडल में भाजपा की जीत की राह कितनी आसान होगी, यह सवाल अभी चुनाव होने तक बन हुआ है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सत्ता में होते हुए भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं गिनाकर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। उधर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिकला अर्जुन खरगे समेत कई बड़े नेता भी सभाएं कर चनाव में जीत के लिए ताकत झोंक रहे हैं। देश के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले से अधिक सीटें जीतने का दम भर रही है तो कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव में ताकत दिखाने में जुटी है। लेकिन यहां रामपुर से सांसद और विधायक रहे आजम खां सीतापुर की जेल में होने के चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिख रहे हैं। इनके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी जीती हुईं सीटों को बचाने के साथ ही सपा की मुश्किलें बढ़ दी हैं। आकाश नगीना में बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल के समर्थन में अपने राजनीति करियर की पहली जनसभा कर चुके हैं। हालांकि बसपा के प्रत्याशियों के सामने भाजपा की राह भी आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बसपा के प्रत्याशियों के सामने अमरोहा, बिजनौर की दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। अमरोहा लोकसभा सीट पर बसपा के टिकट से चुनाव लड़े कुंवर दानिश अली ने भाजपा के सांसद कंवर सिंह तंवर को हराया था। बिजनौर में नगीना सीट से बसपा के गिरीश चंद और बिजनौर सीट से मलूक नागर के सामने भाजपा व सपा के उम्मीदवारों को हार का समना करना पड़ा था। लेकिन इस बार नगीना सीट पर मुकाबला और रोचक हो गया है। यहां बसपा के सुरेंद्र पाल और नहटौर से मौजूदा विधायक ओम कुमार भाजपा-रालोद के संयुक्त प्रत्याशी हैं। इन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्र शेखर आजाद बने हुए हैं। माना जा रहा है कि वह मुस्लिम और दलित वोटरों के दम पर बसपा-भाजपा की जीत की राह में बड़ी चुनौती है। हालांकि बसपा ने अमरोहा और बिजनौर की दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। दानिश अली बसपा से निष्कासित होने पर कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव लड़ रहे हैं तो बसपा ने मुसाहिद चौधरी को टिकट थमाया है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच मुसलमान और जाटव वोटरों का बिखराव होने पर भाजपा के कंवर सिंह तंवर की जीत की राह आसान होती दिख रही है। नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर सीट पर सपा ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है। नूरपुर सीट से सपा विधायक रामअवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी सपा के प्रत्याशी हैं। रामपुर और संभल में स्थित कुछ अलग है। यहां सपा ने भाजपा को टक्कर देने के लिए दो नए चेहरों पर दांव खेला है। रामपुर में नामांकन के अंतिम समय तक अखिलेश यादव और आजम खां के बीच प्रत्याशी को लेकर सहमित नहीं बन सकी थी। हालांकि बाद में रामपुर के ही रहने वाले मौलाना मोहिबुह्याह को सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया। वह राजनीति में नए हैं। उनका सामना भाजपा के मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोदी से है। लोदी ने उपचुनाव में आजम खां को हराया था। संभल में सपा सांसद डॉ. शफीकुर्रमान बर्क का निधन होने पर उनके विधायक पौत्र जियार्अमान बर्क को टिकट दिया गया। वह भाजपा के अनुभवी नेता परमेश्वर सैनी के सामने अपने करियर का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें दादा की राजनीतिक विसारत का फायदा मिल सकता है। मुरादाबाद सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। सांसद डॉ. सैयद तुफैल हसन का टिकट काटकर बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। रुचि वीरा का मुकाबला भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार कुंवर सर्वेश सिंह से है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद की राजनिति में बड़ा नाम है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा के एसटी हसन ने हराया था। बसपा और सपा ने बदले अधिकतर प्रत्याशी- इस बार लोकसभा चुनाव में मंडल की कई सीटों पर सपा और बसपा ने अपने पुराने व मौजदा सांसदों को टिकट नहीं दिया। दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बसपा ने नगीना से सांसद गिरीश चंद्र और बिजनौर से सांसद मलूक नागर, अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली का टिकट काटा है। सपा ने भी मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर की दों सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। हालांकि गठबंधन होने पर अमरोहा की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। गठबंधन की वजह से रामपुर में नवाब खानदान इस लोकसभा चुनाव से दूर हो गया है। हालांकि सपा-कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने तक नवाब घराने की बहू बेगम नूरबानो मजबूती से चुनाव लड़ रही थीं। वह जिताऊ प्रत्याशी मानी जा रही थीं। लेकिन गठबंधन होने से वह प्रत्याशी नहीं बन सकीं। यहां सपा के नए चेहरे की वजह से भाजपा के लोदी की जीत की राह आसान दिख रही है। किस पार्टी के कितने नेता चुनाव प्रचार में फूंक रहे जान- मंडल की छह लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार में अभी तक भाजपा ही सबसे अधिक सिऋय दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में जनसभा कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह मुरादाबाद में एक कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं। रामपुर व बिजनौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाएं कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा, रामपुर, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद में कई सभाओं को संबोधित चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को अमरोहा सीट से सटे हापुड़ में जनसभा की। इनके अलावा प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में आ चुके हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा के सहयोगी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत ने अमरोहा और बिजनौर में जनसभाएं की हैं।

# ईद पर छाया मातम: बाप-बेटे की मौत इस बार वोट के नाम पर दूसरी पार्टियों से टूटा कहर, नहीं थम रहे परिजनों के को कटोरा थमा देना...आकाश आनंद आंसू, दोनों फैक्टरी से लौट रहे थे घर बोले- बहरूपियों से रहना है सावधान

कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने

प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान

उन्होंने सरकार पर जमकर वार

किया।सभा संबोधित करते हुए

कहा कि बहरूपियों से सावधान

रहना। बहुजन समाज पार्टी

सुप्रीमो मायावती के भतीजे और

पार्टी के नेशनल कॉर्डिनेटर

आकाश आनंद ने कहा है कि

भाजपा सरकार ने शिक्षा,

रोजगार और मंहगाई के मुद्दे पर

कुछ नहीं किया, केवल आपके

हाथ में कटोरा थमाया है।

इसलिए इस बार वोट के नाम

पर जनता भी उनको कटोरा ही

थमाए। आकाश आनंद ने

कांग्रेस पर बहुजन समाज पर

अत्याचार करने का आरोप

लगाया तो सपा को टोपीबाज

बताया। बृहस्पतिवार को यमुना

पार क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी सुरेश

सिंह के पक्ष में आयोजित

आयोजित चुनावी सभा में

बसपा के नेशनल कॉर्डीनेटर ने

कहा कि बहुजन समाज को अपने

ही बीच छुपे बहरु पियों से

दिन एक दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। एक साथ बाप-बेटी की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा है। उधर, आसपास के लोगों में भी गम का माहौल है। वहीं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे लोगों की जुबां पर सिर्फ एक ही बात थी। हर कोई कह रहा था कि अल्लाह तूने ये क्या कर दिया। एक ही झटके में बाप और बेटे को छीन लिया। इस दौरान सभी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। मेरठ में ईद के दिन एक परिवार पर कहर टूट पड़ा है। दर्दनाक हादसे में बाप-

बेटे की मौत से परिवार में

कोहराम मचा है। वहीं, परिजनों

के आंसू थम नहीं रहे हैं। अज्ञात

वाहन ने मारी टक्कर-बताया गया

कि पिता और पुत्र बृहस्पतिवार

को फैक्टरी से काम करके

वापस लौट रहे थे। इसी दौरान

शॉप्रिक्स मॉल के पास बिजली

बंबा बाईपास पर एक अज्ञात

वाहन ने बाप-बेटे की अपनी



पर ही दम तोड़ दिया। ईद पर छाया मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल- पिता और पुत्र की हादसे में मौत होने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम

रोत-बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। इस दौरान वहां राहगीरों की भीड़ लग गई। वहीं, ईद पर हुए इस दर्दनाक हादसे के बारे में जिसने भी सुना, वह सहम उठा। फैक्टरी में काम करते थे पिता-पुत्र मेरठ में ईरा गार्डन के रहने वाले युसूफ चपेट में ले लिया। हादसा इतना और उनका बेटा अमन परतापुर तलाश में जुटी है।

थे। वे दोनों ईद के दिन बृहस्पतिवार को फैक्टरी से वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में हादसा हो गया। वहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।बताया गया कि हादसे के बाद दोनों को निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। उधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चालक की

# मथुरा आए जयंत चौधरी ने हेमा मालिनी की ली जीत की गारंटी,

बोले- तीसरी बार बनेंगी सांसद मथुरा के बलदेव में रालोद

राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने सांसद हेमा मालिनी की जीत की गारंटी ली। इतना ही नहीं उन्होंने हाथ उठवा कर लोगों का आश्वासन भी लिया। मथुरा के बलदेव में अवैरनी चौराहा पर रालोद और भाजपा की संयुक्त हुआ, जिसमें सांसद हेमा सरकार ने किया है। विपक्ष के हैं उनको पूरा करना है। मैंने सुनाते हुए सभी को भाव विभोर शाम बदले जा रहें हैं। मैं पलटीं कर दिया। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा देश में मोदी की गारंटी चल रही है। मथुरा में मैं जयंत चौधरी भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के रिकॉर्ड मथुरा का मानता हूं, आप मुझे मतों से विजयी होने की गारंटी लेता हूं, सभी उपस्थित लोगों से हाथ उठवा कर आश्वासन लिया जियंत चौधरी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिए जाने पर नरेंद्र मोदी सरकार का



ने आज तक चौधरी चरण सिंह की बात कही। उन्होंने कहा कि आराप पर कहा प्रत्याशी नहीं वाला हूं। मथुरा नगरीय तीन लोक से न्यारी है। यहां पर सांसद भी तीन हैं। मैं अपने आप को मथुरा का मानते हैं तो सभी हाथ उठाकर कहो आप हमारे हैं हम आपके हैं, दूसरे सांसद राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह है, तीसरी आपकी सांसद हेमामालिनी हैं। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी बहुत बहुत धन्यवाद व आभार ने तीसरी बार जनता से चुनाव प्रकट किया। किसी भी सरकार में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने आदि मौजूद रहे।

चुनावी जनसभा का आयोजन के सम्मान में नहीं हुआ वह मोदी इस बार जो अधूरे कार्य रह गए 2009 में सांसद जयंत चौधरी जयंत चौधरी ने पिछले संस्मरण मिल रहे हैं विपक्ष को, सुबह- के लिये वोट मांगे थे, आज जयंत चौधरी भाजपा व मेरे मार नहीं हूं मैं तो पटकनी मारने लिए वोट मांगने आये हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन रालोद जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भरंगर ने किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह भरंगर, सांसद तेजवीर सिंह, विधायक पूरन प्रकाश, रविकांत गर्ग, श्याम भदौरिया, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष निहाल सिंह आर्य, विधानसभा संयोजक मेरुकान्त पांडेय, राजेन्द्र सिंह सिकरवार

सावधान रहना होगा। ये आपके दुश्मन हैं, लेकिन आप पर सीधा वार नहीं करेंगे। ये बहुत समझदार हैं। कहा कि जो आपके बीच में रहते हुए बहनजी का विरोध करता है और दूसरी पार्टी के नेताओं की प्रशंसा करता है, ऐसे बहरुपियों को पहचानने की जरुरत है। ऐसे लोग कहेंगे कि बहनजी तो उम्र में बढ़ चुकी हैं*,* अपने लोगों से दूर हो गड़ हैं। साथ ही विपक्षी नेताओं और पार्टियों को आपका शुभचिंतक बताएंगे। आकाश आनंद ने कहा कि जो बहनजी के खिलाफ बोलता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। जो बहनजी के खिलाफ है, वे कांशीराम और डा अंबेडकर, बसपा और संविधान के कार्यकर्ता बन जाएंगे, कभी अधिकारी तो कभी प्रत्याशी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप अपना वोट हाथी वाले बटन को दबाकर बसपा को डालिए। बहनजी तक आपकी पूरी बात पहुंचाई जाएगी।आपको अपनी बहनजी की बात सुननी है। उन्होंने कहा कि अब तक बसपा पूरे तन, मन, धन से चुनाव लड़ती आयी है और आगे भी इसी तरह लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पाटियां आपका वोट छीनने के लिए मीठे मीठे वायदे करेंगे। लेकिन आपको उनसे सवाल



क्या किया। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, अगर हमारे पेट भूखे हैं। हमारा पहला धर्म हमारा रोजगार, शिक्षा है। उन्होंने कहा कि आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। इससे युवाओं को निराशा होती है। सरकार को नौकरियां कैंसिल करने का बहाना मिल जाता है। आजकल के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। डिजीटल इंडिया की बात सरकार कर रही है, लेकिन स्कूलों में कम्प्यूटर नहीं है। आज भाजपा सरकार में तीन में से एक ग्रेजुएट बेरोजगार है। तीन हजार से अधिक युवा क्लास फोर में नौकरी के लिए एप्लाई कर रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा कि इस बार वोट मांगने पर इनको कटोरा देना। कह देना कि हमारा वोट हमारी बहनजी के साथ है। कहां है मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, इनसे पूछो दस साल में कितना रोजगार दिया। मंहगाई पर उन्होंने कहा कि पेट्राल पचास से सौ रुपया पार कर गया और सिलेंडर चार से एक हजार को पार कर दिया। कहा कि हमें उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन सब्सिडी नहीं चाहिए, मंहगाई कम करके दिखाओ। इन्होंने आपको हर स्तर पर कमजोर करने का प्रयास किया है। आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, मंहगाई कम नहीं की। पिछले दस सालों में केवल हाथ में कटोरा थमाने का काम किया। इसलिए जब ये वोट मांगने आएंगे, तो कटोरा फेंककर मारिए। बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने कहा कि वे सभी से वादा करते हैं कि कभी भी उनसे मिल सकते हैं। एक फोन पर भी वह लोगों की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। राम मंदिर

के साथ बाबरी मस्जिद भी बने-उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि आपने हर धर्म समाज को साथ लिया है। पर आज आज हमार बहन बेटियों के लिए क्या किया है। सरकार गर्व से बुलडोजर की सरकार कहलाती है। ये कोई गर्व की बात नहीं है। बसपा सरकार ने गरीबों के सिर पर छत दी है। इस बार सपा की टोपी उनके ही सिर पर रख देना-आकाश आनंद ने सपा को लेकर कहा कि वे बहुजन समाज पर अत्याचार करते हैं। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे।लेकिन आपको इनकी टोली इनके ही सिर पर रखकर वापस कर देना। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर कर अलग कर देंगे। हाथ दिखाकर कांग्रेस बेवकूफ बनाती रही है- उन्होंने कहा कि हाथ दिखा दिखाकर कांग्रेस पार्टी अब तक लोगों को बेवकूफ बनाती आयी है। पिछले साठ सालों में बहुजन समाज के लिए क्या किया। हमारे साथ अत्याचार किया है, दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बहनजी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो आर्मी के लिए देश के लिए करेंगी। भाजपा प्रत्याशी से मिलने के लिए गंगाजी नहाना होगा - पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि सुरेश चौधरी सबसे अच्छे कैंडीडेट हैं। सरेश चौधरी से आप कभी भी कहीं भी मिल सकते हो। आज भाजपा की प्रत्याशी से मिलने पर के लिए पहले गंगाजी जाओ, गंगाजल डालकर आओ, तब मिलना पड़ेगा। जबकि सुरेश गिर्राज की भूमि के हैं। हे ्ब्रजवासियों सर्वधर्म समभाव संप्रभ्ता, रचना, निर्माण, विकास और संविधान के लिए

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश ( Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

## संक्षिप्त समाचार

# ईद पर अयोध्या ने दिया भाईचारे का संदेश... इकबाल अंसारी से मिलने पहुंचे रामलला के मुख्य पुजारी

ईद के अवसर पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या भूमि विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर

पहुंचे और उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी।ईद उल फित्र के अवसर पर राम की नगरी अयोध्या सां प्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है।



श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या भूमि विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी इस अवसर पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जैसे हमारा त्योहार होता है वैसे ये मुस्लिम संप्रदाय का त्योहार है। इकबाल अंसारी होली दिवाली मनाते हैं। हम भी उन्हें ईद के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।वहीं, इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है। यहां से हम संदेश देते रहते हैं देश में भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। यहां की गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे और देवी-देवताओं का सभी का सम्मान रहे। इसलिए रामलला के मुख्य पुजारी को आमंत्रित किया है और उनसे आशीर्वाद लिया

# बैंक खाते में 55 लाख ट्रांसफर करने वाला साइबर अपराधी अरेस्ट, शिक्षिका से धोखाधड़ी में 14 हो चुके गिरफ्तार

वाराणसी में रिटायर्ड शिक्षिका से 3.55 लाख की साइबर फॉड के मामले में अब तक 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इसी ऋम में फर्जी फर्म की कंपनी के बैंक खाते में रकम मंगाने वाला आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।रिटायर्ड शिक्षिका से 3.55 लाख की साइबर धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने बुधवार को छावनी क्षेत्र कैंट स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के पास से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 71 हजार रुपये बरामद हुए। आरोपी ने साइबर ठगी के 55 लाख रुपये अपने फर्जी फर्म से संबंधित बैंक खाते में रखे थे। अब तक मुकदमे के 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी फर्जी जीएसटी और उद्योग फर्म के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर बड़ी रकम मंगाता था। साइबर ऋाइम प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार पवन सिंह( 20 ) राजस्थान, जयपुर के मालवीय नगर, झालना का रहने वाला है। पवन सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह जल्द पैसा कमाने की चाहत में साइबर अपराधियों के गिरोह से जुड़ा गया था। अपने और साथियों के नाम पर किराये के घर का पता दिखाकर बैंक खाता खुलवाकर साइबर अपराधियों को देता था। इसके एवज में कमीशन दिया जाता था। साथियों के साथ करंट अकाउंट किसी भी कंपनी के नाम से खोल लेते थे और उसमें फॉड का पैसा मंगाते थे। कुछ दिन पहले रथयात्रा निवासी महिला शंपा रक्षित से ठगी के मामले में साथियों द्वारा विभिन्न खातों में पैसा ट्रांसफर कर निकाल लिया गया, जिसमें मुझे भी बड़ी रकम मिली थी। कुछ दिन बाद बैंक से मालूम चला कि खाता वाराणसी की साइबर पुलिस ने बंद कर दिया है। इस सिलसिले में वाराणसी पहुंचा था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी टीम में निरीक्षक अनीता सिंह, सतीश सिंह, नीलम सिंह, श्याम लाल गुप्ता, आलोक कुमार सिंह आदि रहे।

# फिल्म मतदान मेरा अधिकार हुई रिलीज, ऐसे देख सकते हैं इस

फेल्म मतदान का अधिकार को देश-विदेशों सहित सुसेन फिल्म एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। फिल्म में मतदान के दिन वोट डालने की अपेक्षा, उन्हें शहर से बाहर जाने से रोक उनके प्रथम अधिकार के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया है।मतदाता जागरूकता के लिए सकारात्मक संदेश देने के लिए बनी लघु फिल्म) मतदान मेरा अधिकार) रिलीज हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस फिल्म को मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में दिखाया जाएगा।18 वीं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हेतु मतदाता जागरूकता करने वाली डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन की लघु फिल्म % मतदान मेरा अधिकार % के पोस्टर का लोकार्पण हुआ। अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम विशाख जी, सीडीओ आकांक्षा राणा और आईएएस साहिल कुमार ने फिल्म को रिलीज किया। डीईओ विशाख जी ने बताया कि फिल्म निर्माता पंकज धीरज की बनाई गई सहयोगी कुलदीप आर्य आदि हैं।

# ने प्रेमिका के सिर पर डंडे से मारा, फिर फर्श पर पटककर दी थी दर्दनाक मौत; पुलिस ने 3 को किया अरेस्ट

वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर बक्से में मिली महिला की हत्या का खुलासा करते हुए गाजीपुर पुलिस व स्वाट टीम ने तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला के प्रेमी ने ही एक अन्य प्रेमिका व साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र के वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर 12 दिन पूर्व ताला बंद बक्से में मृत मिली महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। पहचान छुपाने के लिए बक्से में रखकर आटो से मऊ लाकर फेंक दिया था। शादी करने और पैसे की मांग करने पर प्रेमी ने एक अन्य प्रेमिका व

साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मृतका की गुरुवार को तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने पूरा मामला- पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते 31 मार्च को कंसहरी में अज्ञात महिला का शव मिला था। मर्चरी हाउस में शव रखने के नहीं मिल सकी। ऐसे में 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद शिनाख्त पति मुन्ना यादव ने मऊ जिला के सराया लखंसी थाना क्षेत्र की थी। इसके बाद पुलिस हत्यारों को चिन्हित करने व घटना का पूर्वींचल एक्सप्रेस-वे अंडर पास के नीचे से तीन हत्यारोपियों को का डंडा भी बरामद कर लिया। इस वजह से प्रेमी ने रची थी हत्या की कि बीते दो वर्ष से शीला यादव व असगरी खातून दोनों के साथ



शिनाख्त के बाद मरदह पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने पत्रकार वार्ता के दौरान हत्याकांड का पर्दाफाश किया। यह है भवानीपुर गांव के पास चाय की दुकान पर ताला बंद नए बक्से बाद पुलिस ने शिनाख्त का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता अंतिम संस्कार करा दिया था। बीते नौ अप्रैल को मृतका की के देवपरवा नंदू पोखरा गांव निवासी शीला यादव के रूप में पर्दाफाश करने में जुटी थी। इसी बीच गुरुवार को हैदरगंज पुलिस ने धर-दबोचा। साथ ही हत्या में प्रयुक्त खून लगा बांस साजिश- पूछताछ में मुख्य हत्यारोपी प्रेमी अनूप गुप्ता ने बताया उसका संबंध था। वह मऊ जनपद के ब्रह्मस्थान में किराये पर

रहता था। जहां शीला व असगरी खातून मिलने आया करती थीं। कुछ समय से शीला लगातार शादी और पैसे की मांग कर रही थी। करीब डेढ़ से दो लाख रुपये दिया भी था, लेकिन वह लगातार और पैसे की मांग कर रही थी। इससे आजीज आकर छुटकारा चाहता था। रास्ते से हटाने के लिए 30 मार्च को कमरे पर बुलाया। जहां पहले से मौजूद पंकज वर्मा व दूसरी प्रेमिका असगरी के साथ मिलकर शीला के सिर पर बांस के डंडे से मारकर और फर्श पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर कमरे में ही छिपा दिया था। बीत 31 मार्च को मऊ से स्टील का बक्सा खरीदकर उसमें शव को रखकर एक ऑटो में रखकर कंसहरी में फोरलेन के किनारे रखकर चला गया था। साथ ही मरदह पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मऊ का कमरा छोड़ मरदह में ही किराये पर असगरी व पंकज के साथ रहता था। पुलिस ने तीनों का चालान कर दिया है। इस संबंध में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतका की शिनाख्त के बाद मरदह पुलिस और स्वाट टीम ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी ने ही एक और प्रेमिका और साथी के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी। तीनों को जेल भेज दिया गया

ईद-उल-फितर का त्योहार

बड़ी धूमधाम से मनाया गया

मनाया जाता है. भारत में आज

यानी जुमरात 11 अप्रैल को ईद

का त्योहार मनाया जा रहा है.

ईद का त्योहार समाज में एकता,

सद्भावना और धार्मिकता के

महत्व को बढ़ावा देता है. इसके

माध्यम से मानवता के मूल्यों की

प्रतिष्ठा की जाती है और सभी

के बीच एक अद्वितीय बंधन का

उत्सव मनाया जाता है.रमजान

का महीना गुजरने के बाद ईद

के दिन बेहद खुशनुमा माहौल

सबसे पहले ईदगाह जाकर नमाज

अदा की जाती है जिसके बाद

एक दूसरे से मुलाकात की

स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं - वायनाड

आतंकी संगठन के साथ

मिलकर वायानाड का चुनाव

लड़ रहे हैं।स्मृति ईरानी ने कांग्रेस

पर जमकर निशाना साधा और

कहा कि कांग्रेस लगातार यहां

सत्ता में रही लेकिन कांग्रेस ने

कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकार

की नीतियों पर प्रकाश डाला।

कहा कि आज 4 लाख 20 हजार

किसानों को अमेठी लोकसभा

कांग्रेस चाहती थी कि गरीब

हमेशा गरीब ही रहें और अमीरों

के आगे हमेशा हाथ फैलाता रहे।

इस दौरान सांसद ने पश्चिम

में आतंकी संगठन के साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव

ईद-उल-फितर का त्योहार या शीर खुरमा खाकर मुंह मीठा

करते हैं और ईद की बधाई देते

हैं. ईद के त्योहार पर लगभग

सभी लोग नए कपड़ों में नजर

आते हैं और सुन्नत के लिए कपड़ों

पर इत्र भी लगाया जाता है। ईद

की नमाज ईदगाह पर पढ़ी जाती

है। कई जगहों पर ईद की नमाज

मस्जिदों में भी पढ़ी जाती है

लेकिन तरीका तो यही है कि

नमाज हमेशा ईदगाह पर ही पढ़ी

जानी चाहिए।ईदगाह पर नमाज

पढ़ना ही अच्छा माना जाता है.

इस्लाम से जुड़े लोगों का मानना

है कि पैगंबर हजरत मुहम्मद

साहब से पहले ईदगाह पर जाकर

नमाज पढ़ने का चलन नहीं था.

उनके समय से ही ईदगाह पर

पर भी जमकर निशाना साधा।

आयोजित कार्यक्रम में अमेठी

विधानसभा के 54 ग्राम प्रधान,

पूर्व ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत

सदस्य और पूर्व ब्लाक प्रमुख

शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रभारी

मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद

जन चेतना दिव्यांग

सोसाइटी शामली

द्वारा मनाया ईद

क्यूँ न लिखूँ सच

राकेश गुप्ता

शामली- जन चेतना दिव्यांग

सोसाइटी ने प्रदेश उप मीडिया

परभद्धरी इरसाद अहमद जी

मिलन समारोह

# रीवा त्योंथर विधानसभा के थाना जनेह के अंतर्गत पटहट के पूर्वा पटेहरा में भू-माफिया का अवैध खनन का चल रहा कारोबार

क्यूँ न लिखूँ सच

आलोक मिश्रा त्योथर- सरकार अवैध खनन रोकने के लिए लाख दावा करती है। लेकिन त्योंथर विधानसभा जनेह थाना अंतर्गत कुछ और देखने को मिला। रीवा के विधानसभा त्यौंथर के पटहट के पुर्वां पटेहरा गांव मे हो रही है। अवैध खनन पत्थर और गिट्टी की भरमार खुदाई हो रही हैं। जहां पर कई खदान मे जोर शोर से हो रही है। खोदाई देवी दत्त संतलाल गुरु कई लोग यू०पी० से आकर दबंग लोग आकर एम0पी0 के धरती का सीना चीर कर रहे हैं। अवैध खनन ऐसा खनन माफिया जो छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता जब सच्चाई जानने के लिए त्योथर-शफात



10 साल के बच्चे भी गिट्टी पत्थर तोड़ने मे लगे हुए है कुछ तो कैमरा मे आने से भी कतराते रहे कुछ तो कैमरा देख कर भाग गए। जब इस विषय में एक मजदूर से पूछा गया तो उनका कहना है कि यह तो कई वर्षों से चल रहा है। जब इस विषय मे खनन मालिक से बात कि गई

तो देखा गया की करीबन 9 से ऑडिओ मे सुन सकते है आप क्या इस विषय मे राजस्व विभाग को कुछ पता नहीं है या फिर मिली भगत से चल रहा है। क्योंकि पूर्व में भी कई ऑडियो और वीडियो वायरल भी हो चुकी हैं। अब देखना ये है की क्या कार्यवाही होती है। या फिर य कार्यवाही ठंड बक्से में बंद कर दी जाएगी फिलहाल

क्यूँ न लिखूँ सच

शामली- शामली के साथ-

साथ भारत में आज ईद-उल-

फितर 2024 का त्योहार

धूमधाम से मनाया जा रहा है।

देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने

ईद की सभी को मुबारकबाद

दी है. उन्होंने कहा, देशवासी

अमन-चैन से रहें...%मैं सभी

देशवासियों, विशेष रूप से

मुस्लिम भाइयों और बहनों को

ईद-उल-फित्र की मुबारकबाद

देती हूं. रमजान के पावन महीने

के बाद मनाए जाने वाले इस

पर्व से एकता, सद्भाव और

भाईचारे की भावना का संचार

होता है. खुशियां बांटने का यह

त्योहार क्षमा और दान करने की

प्रेरणा देता है. मैं इस पवित्र

अवसर पर कामना करती हूं कि

हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग

पर बढ़े और सब देशवासी सदा

अमन-चैन से रहें. ईद का त्योहार

सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक

एक दूसरे को मीठा खिलाकर

ईद की बधाई देते हैं। नई रमजान

का महीना पूरा होने के बाद जब

निशाना साधते हुए कहा कि मैंने

लोगों को रंग बदलते देखा है।

परिवार बदलते पहली बार राहुल

गांधी को देखा है। राहुल गांधी

आतंकी संगठन के साथ

मिलकर वायानाड का चुनाव

लड़ रहे हैं।केंद्रीय मंत्री स्मृति

ईरानी ने बृहस्पतिवार को एक

बार फिर राहुल गांधी पर हमला

बोला है। बृहस्पतिवार को अमेठी

के दौरान लिखकर घोषित किया

कि वायनाड हमारा घर है। जब

वह राहुल गांधी का घर है तो

अमेठी क्या है? कहा कि मैंने

है. ईद के मौके पर मुस्लिम लोग देखने को मिलता है. ईद पर

शब्वाल महीने की पहली शुरुआत हो जाती है। लोग एक

तारीख शुरू होती है तो उस दिन दूसरे के घर जाकर खीर, सेवईं

केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद परिवार बदलते पहली बार राहुल

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गांधी को देखा है। राहुल गांधी

के मेदन मवई में आयोजित में 6 हजार रुपए सालाना मिल

कार्यक्रम के बाद कहा कि राहुल रहा है। कांग्रेस ने गरीबों के लिए

गांधी ने वायनाड से नामांकन शौचालय तक नहीं बनवाया

लोगों को रंग बदलते देखा है। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार

राकेश गुप्ता

# मंसूरी-पत्रकार की टीम पहुंची तो उनका क्या कहना है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी का आगमन13अप्रेल को संगठन की बैठक लेंगे - अखलाक प्रधान

क्यूँ न लिखूँ सच राकेश गुप्ता

शामली- - आज जिला कांग्रेस

कमेटी शामली के जिला

अध्यक्ष मोहम्मद अखलाक

प्रधान जी के निवास पर पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक सैनी जी के निर्देशन में एक संगठन की बैठक आयोजित की गई जिसमें माननीय अविनाश पांडे जी राष्ट्रीय सचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी के 13 अप्रैल को शामली आगमन के विषय में चर्चा की गई इस बैठक में मोहम्मद अखलाक प्रधान जी ने सभी पदाधिकारीयों व कार्यकर्ताओं संगठन को मजबूत करने के विषय पर विस्तार से बताया और सभी कांग्रेस पार्टी चलने का कारण प्रण किया। पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक सैनी जी ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा सर्वोपरि है हम सब हाई कमान के निर्देशों का पालन करते हुए सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। सनी गर्ग जिला उपाध्यक्ष ने बैठक में अपने विचार व्यक्तित्व करते हुए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर विस्तार से बताया सभा का संचालन डॉक्टर रामलाल कश्यप जी ने किया । शमशीर खान जिला महासचिव संदीप



अखलाक प्रधान काग्रस सैनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष शामली, डाक्टर रामलाल कश्यप जिला उपाध्यक्ष, सन्नी

शर्मा जिला महासचिव ने भी यूनियन, संदीप शर्मा जिला बैठक को संबोधित किया । महासचिव, शुभम् छोकर सिभालका,मुनसाद चोधरी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जिलाध्यक्ष शामली, दीपक जिला सचिव, जावेद नगर अध्यक्ष, साबिर, वाजिद अली, मेहरबान, लोकेश शर्मा, सुभाष सैनी, इस्लाम, उमरदीन, जाहिद गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष कामगार हुसैन, नदीम, आदि मौजूद रहे।

क्यूँ न लिखुँ सच

राकेश गुप्ता शामली- शामली के जाने माने नवीन पारस हैंडलूम का महिला थाने के सामने मिल व हनुमान रोड शामली मे भव्य उद्घाटन किया गया।

शामली के बीचों-बीच शुरू हुए इस शोरूम में शामली के गणमान्य लोगों ने बड़ी



में चार चांद लगा दिए। लोगों

ने इस शोरूम में बड़ी संख्या में खरीदारी की

मालिक ललित जी को

स्वामी जी से शोरूम के रात-दिन चलने की कामनाएँ की तथा शोरूम का प्रसाद ग्रहण किया।

और शोरूम

को उनके निवास स्थान पर शुभकामनायें दी जाके ईद पर्व पर बधाई दी। और भगवान महावीर इसी कड़ी मे मनीष मितल जी अध्यक्स, विजय कुमार सरोहा जिला उपाध्यक्ष सूर्य कांत जी आदि उपस्थित रहे। आप अपना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित कराये जैसे नीलामी सूचना, बेदखली सूचना, ऋय विऋय सूचना आदि, वो भी कम <mark>कीमत में संपर्क करे - 927776991</mark>

# संक्षिप्त समाचार

# बागपत में किसान की गला दबाकर हत्या, खेत में पड़ा मिला शव

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

बागपत-बड़ौत के मलकपुर गांव में बृहस्पतिवार की सुबह एक किसान की कुछ लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी गई और के खेत में

फेंक दिया। कोतवाली पर पहुंची कब्जे में पोस्टमार्टम इस मृतक बेटे ने अज्ञात



सूचना पर पुलिस मौके और शव को लेक र के लिए भेजा मामले में किसान के के खिलाफ

तहरीर दी है। किसान की मौत से परिजन गमगीन है। मलकपुर गांव निवासी यशपाल उम्र 65 साल पुत्र राम सिंह बुधवार की शाम साढे चार बजे खेत के लिए गया था, लेकिन देर रात भी वापस नहीं लौटा। बृहस्पतिवार की सुबह जब गांव के किसान खेतों में काम करने गए तो यशपाल का नग्न अवस्था में शव जई के खेत में पड़ा मिला। यशपाल के मुंह में कपड़ा ठूंसा था। सूचना पर सीओ सविरत्न गौतम, इंस्पेक्टर संजय शर्मा, एसओजी टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में मृतक किसान के बेटे नितिन ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। किसान की मौत से परिजन गमगीन है। इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शराब पीने के दौरान झगड़े होने पर गला व मुंह में कपड़ा ठूंसकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति की जानकारी मिलेगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है

# गीत गाते-गाते चीखने-चिल्लाने लगे सभी: सड़क हादसे में चार की मौत, भतीजी की शादी में शरीक होने जा रहा था परिवार

यूपी के देवरिया स्थित भटनी थाना क्षेत्र के देवघाट गांव निवासी व्यवसायी दंपती समेत चार की गुरुवार सड़क हादसे में गुजरात के तापी जिले में मौत हो गई। वह गुजरात में ठेकेदारी व व्यवसाय करते थे। बुधवार की देर रात पत्नी व दो वर्षीय बेटी के साथ 20 अप्रैल को तय भतीजों को शादी में शरीक होने व शादी के तैयारी करने अपने निजी वाहन से देवघाट घर आ रहे थे। भटनी



के देवघाट गांव निवासी रविभूषण मिश्र ( 45 ) गुजरात में रहकर ठेकेदारी व व्यवसाय करते थे। बुधवार की देर रात वह 20 अप्रैल को आयोजित बड़े भाई शशि भूषण मिश्र की बेटी की शादी में शरीक होने अपनी इनोवा वाहन से पत्नी व दो वर्षीय बेटी के साथ निकले थे। घटना की जानकारी पर शादी वाले घर में जहां मंगल गीत बज रहे थे वही परिवार के तीन सदस्य की मौत से <mark>मातम छा गया। परिजन चीखने-चिल्लाने लगे। शोर सुनकर जुटे</mark> ग्रामीणों ने पीड़ित परिजनों को ढांढस बढ़ाने में जुटे रहे। भटनी के देवघाट गांव निवासी रविभूषण मिश्र ( 45 ) गुजरात में रहकर ठेकेदारी व व्यवसाय करते थे। बुधवार की देर रात वह 20 अप्रैल को आयोजित बड़े भाई शशि भूषण मिश्र की बेटी की शादी में शरीक होने अपनी इनोवा वाहन से पत्नी व दो वर्षीय बेटी के साथ निकले थे। गुरुवार सुबह अभी वह गुजरात राज्य के तापी जिले के सुनवारी थाना क्षेत्र के हीरावाड़ी गांव के पास पहुंचे थे कि इनोवा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिसमें रविभूषण मिश्र, पत्नी, बेटी व चालक की मौत हो गई। गुजरात पुलिस की जानकारी पर शादी वाले घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। भाई शशिभूषण व अन्य घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस दुखद घटना की जानकारी पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में जुटा रहा।

# अमन चैन और शांति की दुआओं के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व

क्यूँ न लिखूँ सच -दीपक सैनी

मऊरानीपुर- ईद उल फितर पर्व नगर एवं क्षेत्र में पूरे सौहार्द व भाई चारे के साथ मनाया। गया मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह पर नवाज अदाकर देश में अमन शांति की दुआएं मांगी ।तथा एक दूसरे को गले लगा कर ईद पर्व की बधाइयां दी। जानकारी के अनुसार ईद पर्व को लेकर ईदगाह मस्जिद परिसर मैं व्यापक सफाई व्यवस्था की गई गुरुवार की सुबह से ही मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में बच्चों के साथ

ईदगाह पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 8 बजे कमेटी के अध्यक्ष हाजी महमूद अहमद ने व्यवस्थाओं को इफ्तेखारुल हसन ने मुस्लिम भाइयों को नवाज अदा कराई। मांगी। ईदगाह परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कोतवाली प्रभारी अखिलेश द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक ानवाज अदा करने के बाद परिसर में मौजूद तमाम एक दूसरे की ईद की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो में मौजूद गरीब एवं असहाय लोगों को दान दिया साथ ही मुस्लिम भाइयों ने अपने-अपने घरों में आने वाले मेहमानों बधाई देने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा ।कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है इस मौके पर हाजी तुफैल प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, अधिशासी अधिकारी नगर नेता शिवनारायण सिंह परिहार ,राकेश पहलवान, राजेंद्र रसूल,मौलाना साविरुल कादरी, हाजी सुलेमान,इकबाल



तक पूरा ईदगाह परिसर खचाखच भर गया। ईदगाह इंतजामिया चाक चौबंद बनाया। सुबह ८ बजे हाफिज कारी मौलाना मुफ्ती जिसमें मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन व शांति के लिए दुआए लिए उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी क्षेत्राधिकार लक्ष्मीकांत गौतम देहात गोपीनाथ सोनी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा राजनीतिक दलों के नेताओं एवं गणमान्य नागरिकों मैं गले मिलकर गया। और जो काफी देर तक चलता रहा। मुस्लिम भाइयों ने परिसर अपने बुजुर्गों को भी याद किया ।ईद उल फितर पर्व को लेक को सेवई, फुलौरी सहित अन्य व्यंजनो का आनंद उठाया। पर्व की मिलाकर ईंद उल फितर का पर्व नगर एवं क्षेत्र में भाईचारे के साथ अहमद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिश्चंद आर्य, पालिका अध्यक्ष पालिका सर्वेश कुमार, पूर्व विधायक प्रगिलाल अहिरवार, किसान राहुल, सुभाष सोनी, हाजी सलीम भाई, मौलाना गुलाम वारसी, फिरोज खाँ वारसी, रफीक खाँ, रहीश वकाई, हाजी आशिक

जाफर रहमान बैण्ड, मोहम्मद इकबाल खाँ, हाजी वसीर भाई, मुसफफर अहमद ( मज्जू ), हाजी गफ्फार, मुहम्मद इदरीश, मुहम्मद खालिक, मुहम्मद,याकूबे, मुहम्मद अय्यूब, मुहम्मद मुस्ताक, आतिफ भाई, अनीश भोपाली, हाजी निजाम,वन्टी, मुहम्मद जाकिर राजू मुहम्मद रऊफ, हनीफ पठान, समीम अहमद, रफीक पठान, शाहिद राईन आदि उपस्थित रहे।

# आपस में भिड़ीं बाइकें, पीछे से आ रहे डंपर ने लोगों को कुचला; पांच मौतों से मचा कोहराम

नीचे गिरे लोगों को पीछे से आए डंपर ने कुचल दिया। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार पांच लोगों



की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हादसे के बाद जुटे ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। घटना का पता चलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। डंपर को पकड़ने की मांग को लेकर हंगामा किया और हाईवे जाम करने की कोशिश भी की। मौके पर कानून व्यवस्था को कायम बनाए रखने के लिए

पुलिस बल तैनात है। बृहस्पतिवार सुबह 10=30 बजे निसरा के पास दो बाइकों में भिडंत हो गई। बाइक टकराने से इन बाइकों पर सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए। इसी समय पीछे से आए डंपर ने 21 वर्षीय आकिब पुत्र हसीन निवासी ग्राम विलाई पिसयापुर, साहब ( 25 ) पुत्र शाहिद निवासी ग्राम परेवा वैश्य, अरबाज ( 26 ) पुत्र अकील खान निवासी ग्राम परेवा वैश्य को कुचल दिया। दूसरी बाइक पर सवार ग्राम अडोली निवासी ओवैस पुत्र ताहिर अली और उनकी पत्नी 30 वर्षीय सकरा बेगम की भी हादसे में मौत हो गई। घटना का पता चलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। डंपर को पकड़ने की मांग को लेकर हंगामा किया और हाईवे जाम करने की कोशिश भी की। हंगामे की सूचना मिलने पर सीओ सदर डॉक्टर प्रतीक दहिया, प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद मुकेश शुक्ला भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक तीनों युवक ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। जबकि दंपती ईद मिलने के लिए जा रहे थे। सीओ सदर ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

# बाबा विश्वनाथ धाम में राकेश टिकेत ने टेका मत्था, भगवा पगड़ी पर बोले- ये सबका रंग है

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा का दर्शन-पूजन किया। इसके बाद उन्होंने बातचीत के दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भगवा पगडी के सवाल



पर कहा कि यह सबका रंग है। देश में चुनावी रणभेरी के बीच बिहार के चौसा में आंदोलनरत किसानों से मुलाकात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पर

जमकर निशाना साधा। टिकैत भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए थे। इस पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि यह रंग सबका है। हर समाज व संत-महात्माओं का भी है।राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को उनका हक दिलवाकर रहूंगा। वर्तमान सरकार इस देश के किसानों को मजदूर बनना चाहती है। बिहार को तो पूरा मजदूरों का राज्य बना दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में आइएनडीआइए या एनडीए गठबंधन में किसके साथ रहेंगे के सवाल पर कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं। जिसको जहां इच्छा है वे उसे अपना वोट दें। हमारे आंदोलन में दोनों लोग रहते हैं। जिसकी भी सरकार किसानों की विरोधी होगी तो किसान विरोध करेंगे। वर्तमान सरकार ने फूट डालो के तहत कुछ किसानों को अलग करके आंदोलन चलाया। सरकार चाहती है कि किसानों का आंदोलन पंजाब में रहे ताकि सिख समुदाय बदनाम हो। मुख्तार अंसारी को जहर देने के सवाल पर कहा कि जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने 10 साल के बाद सम्मानित किया। उनके जूनियर को पहले सम्मानित किया गया। कहा कि जहां संगठन मजबूत नहीं होगा वहां किसानों की जमीन पर सरकार की निगाहें रहेगी और किसान लूटे जाएंगे। पूर्वांचल में संगठन मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है।

# विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा खटखरी मे निकाली गई भव्य भगवा शोभायात्रा

क्यूँ न लिखूँ सच आलोक मिश्रा

त्योंथर - हिन्दू नववर्ष के शुभ अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद् बजरंग दल जिला मऊगंज के बिछरहटा प्रखंड के खटखरी खंड मे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई शोभायात्रा कार्यक्रम की शुरुआत शनि धाम मंदिर खटखरी से हुई जहां रथ मे सवार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम माता जानकी भाई लखन और हनुमान के साथ सवार होकर भव्य शोभायात्रा डीजे के साथ राम दरबार की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई शोभायात्रा खटखरी बाजार होते हुए देवरा ओवर ब्रिज होते हुए सदियों पुराने शिव मंदिर में पहुंची जहां देवरा ग्राम वासियों द्वारा प्रसाद वितरण किया गया इसके बाद यात्रा वहा से चलकर पुनः वापस खटखरी शाहपुर रोड होते हुए ग्राम पंचायत भवन के सामने श्री राम दरबार की भव्य आरती और भारत माता की आरती हुईं इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया । कार्यक्रम में जात पात की ढहे दीवार अब हिन्दू की यह ललकार,कौन हमारी सब की



माता,जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्रीराम जय श्रीराम, देश का बल बजरंग दल के नारो से गूंजा खटखरी भगवामय हुआ नगर कार्यक्रम में बृजेश हिन्दू विश्व हिन्दू परिषद् बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता, जनपद पंचायत हनुमना से स्वच्छाग्रही प्रेरक संघ अध्यक्ष विरेन्द्र तिवारी, निखिल तिवारी , ज्ञानेंद्र तिवारी , प्रज्ञांशु तिवारी , अरविन्द पटेल, दीपक नामदेव संजय नामदेव ,शिवम् गुप्ता,अनुज, धर्मेन्द्र ,रविन्द्र राजपूत जय नारायण , शुभम गुप्ता, राहुल गुप्ता,रोहन गुप्ता,अमन जायसवाल, अभय गुप्ता,संजीव गुप्ता प्रदीप केशरी

गुप्ता,प्रदीप शर्मा, पुष्पेन्द गुप्ता ,हिंछलाल कुशवाहा सुनील बंसल ,मद्रासी गुप्ता, राजेश गुप्ता, राजेन्द्र गुप्ता,सज्जन पटेल, अमित पटेल रोहित कोल,जित्तू गुप्ता, नवीन सिंह , पीयूष विश्वकर्मा ,संजीव ,भरत लाल सोनी, प्रवीण,एवं समस्त कार्यकर्ता सभी सनातनी हिंदू नगर/ ग्राम वासी शामिल हुए आभार जिले के उपाध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता द्वारा आभार व्यक्त किया गया एवम कार्यक्रम के सफल आयोजन और सहयोग करने के साथ सभी सनातनी हिन्दू समाज के सभी बंधुओ का बहुत बहुत आभार प्रकट किया गया सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस विभाग के बंधुओ का ,धर्मेंद्र गुप्ता , मोहन सिंह ,सोनू भी आभार प्रकट किया ।

क्यूँ न लिखूँ सच

भुता- भाईचारा एवं बंधुत्व का पर्व ईद उल फितर बृहस्पतिवार को धूमधाम से मनाया गया। केसरपुर नूरी चौक ईंद की नमाज़ शांति पूर्वक पड़ी गई सब ने एक दूसरे को खुशी से गले लगाकर ईद की मुबारक़ बात दी कस्बा भुता में हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों पर फूल बरसा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जहां हर ओर जश्न का माहौल रहा वहीं ईद की नमाज पड़ी, उसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर पर्व की बधाई दी। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ही मुस्लिम भाइयों ने नए कपड़े

पहनकर मस्जिदों ब ईदगाहों पर

बल की तैनाती की गई।ईदगाह व गांव में जगह-जगह पर पुलिस के जवान पहरा देते रहे। मुस्लिम समुदाय में ईद उल फितर का पर्व सबसे ज्यादा खुशियों वाला माना जाता है।

एक महीने सुबह से शाम तक बिना खाए पिए रोजे रखे अल्लाह ताला की इबादत करने ने मुल्क की तरक्की ब अमन चैन के बाद ईदगाह में नमाज पढ़ी अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम के अनुसार इस महीने में सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में पुलिस चाहिए। इस्लाम कैलेंडर के

अनुसार रमजान साल का नौवां महीना होता है। और दसवां महीना शव्वाल होता है। इस बार रमजान महीना पूरे 30 दिन का रहा।ईद की नमाज पढ़ने के लिए नया कुर्ता, पजामा ,शेरवानी, और टोपी पहनकर मुस्लिम भाई

बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया ईंदगाह और मस्जिदों के लिए दुआ मांगी। सुबह से जाती है। पवित्र कुरान पढ़ कर के आसपास मेला भी लग रहा जहां बच्चों ने अपनी पसंद के सामान खरीदें ।सुरक्षा की दृष्टि जाकर ईंद की नमाज पड़ी। सबसे ज्यादा दान पुन्य करना से पुलिस बल चप्पे चप्पे पर

# काली बाइक सवार 2 लुटेरा ने माहला से लूटी चेन और कान की झुमकी

एटा - कोतवाली देहात पुलिस के लिए लुटेरे बने बेखौप, पुलिस का गस्त वे असर, लुटेरों ने कोतवाली देहात पुलिस को दी खुली चुनौती,काली बाइक सवार 2 लुटेरों ने महिला से लूटी चेन और कान की झुमकी। थाना बागवाला के गांव कीलरमऊ निवासी उषा अपनी पित के साथ बाइक से जा रहीं

थीं गांव, पवांस की नहर के



समीप हेलमेट लगाए काली बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने महिला की गले की चेन और कान की झुमकी छीन कर हुए फरार। पीड़ित महिला ने में जुटी। एटा - कोतवाली देहात अस्पताल पहुंचकर अपने कान धाना क्षेत्र के पवांस की नहर का कराया उपचार। पीड़ित के समीप की घटना,

महिला ने पति ने थाने पहुंचकर लुटेरों के खिलाफ पुलिस को दी सूचना। घटना की जांच कर पुलिस अज्ञात लुटेरों की तलाश

# संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

# परिवार परामर्श केंद्र ने कराया बिछुडे परिवार का पुर्निमलन

एटा ! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में महिला थाना कैंपस नारी उत्थान केंद्र भवन में संचालित परिवार

परामर्श केंद्र में आज गुरूवार को टूटने की परिवार को समझाकर फिर से एक साथ रहने के लिए राजी किया गया। जिसमें वादी श्रीमती प्रीति पत्नी बबलेश निवासी



?पिलुआ एवं प्रतिवादी बबलेश पुत्र केदारी निवासी भोजपुर थाना पिलुआ रहे आपसी मतभेद के कार्य परिवार परामर्श में पत्रावली प्रचलित थी दोनों परिवारों को परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कर समझाया गया दोनों अपनी पिछली गलतियों को मानते हुए साथ रहने के लिए राजी हुए आज की बैठक उप निरीक्षक मंजीत सिंह पुलिस स्टाफ हेड कांस्टेबल मीना कांस्टेबल रजनी पूजा मौजूद रहे

# एक अभियुक्त को चोरी की एक मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा - जनपद में सुदृण कानून व्यवस्था बनाए रखने के परिदृश्य

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक



अभियुक्त अमन पुत्र भगवती प्रसाद निवासी नंगला प्रेमी थाना कोतवाली देहात को चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मुअस0-127/2024 धारा 413,414 भादवि पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक विधिक कार्यवाही करते

# कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज को सकुशल कराया गया सम्पन्न

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा - ईद की नमाज के अवसर पर एटा पुलिस द्वारा भ्रमणशील रहकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज को सकुशल कराया गया सम्पन्न, मस्जिदों में मौलवियों ⁄नमाजियों से मिलकर ईद की दी गयी मुबारकबाद आज दिनांक 11.04.2024 को



जेलाधिकारी एटा श्री प्रेम रंजन व एसएसपी एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय सिंह कुशवाहा के निकट पर्यवेक्षण में व समस्त क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक ⁄थानाध्यक्ष / चौकी प्रभारियों द्वारा ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भ्रमणशील रहकर वहां के धर्मगुरूओं, मस्जिदों के ईमाम व मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की गयी तथा शान्ति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुलकर त्यौहार मनाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद की 163 मस्जिदों ⁄ईदगाहों में ईद की नमाज को सकुशल सम्पन्न

# हम देश के लिए खून बहाने को तैयार, सीएए-यूसीसी स्वीकार नहीं, ईद कार्यक्रम में बोलीं ममता बनर्जी

कहा कि वह राज्य में सीएए, एनआरसी और समान संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ है।ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए चाहते हैं कि इस चुनाव के दौरान एजेंसियों के आयकर विभाग आदि को लगा दो। मैं उनसे आप 130 करोड़ की पूरी आबादी को जेल में लिए तैयार नहीं हूं। ममता बनर्जी ने बिना किसी को फोन करके उन्हें लुभाने की कोशिश की जा और उनसे पूछ रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं... मैं आपको अगर कोई दंगा भड़काने आए तो आप शांत रहना कराएंगे। सभी को गिरफ्तार करने से देश सूना हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार नहीं करेंगे।



ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की ईद है, ताकत देने वाली ईद है। ममता बनर्जी ने कहा कि %हम देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे।%पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देंगी। ईद के मौके पर कोलकाता में एक जनसभा को लोग चुनाव में दंगा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनके झांसे में नहीं फंसना कहा कि यह खुशी की ईद है, ताकत देने वाली ईद है। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग नाम पर लोगों को डराया जाए। उनके पीछे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, ( भाजपा ) कहूंगी कि वे जेल बनाएं और सभी को सलाखों के पीछे डाल दें। लेकिन क्या डाल पाएंगे? मैं देश के लिए रक्त बहाने को तैयार हूं, लेकिन यह अत्याचार जारी रहे, इसके का नाम लिए कहा कि इस समय जब चुनाव नजदीक हैं तो देश के कुछ मुसलमान नेताओं रही है। उन्होंने कहा, आज इस चुनाव के समय में आप कुछ मुस्लिम लोगों को चुन रहे हैं बताती हूं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। टीएमसी चीफ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्योंकि अगर कोई विस्फोट होगा तो वे एनआईए को भेजेंगे और सभी को गिरफ्तार जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर रहें। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीएए, एनआरसी अगर हम एकजुट होकर रहे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि कि हम INDIA गठबंधन पर बाद में तय करेंगे, लेकिन बंगाल में किसी अन्य पार्टी को

टीएमसी की लड़ाई भाजपा से है। सीएम ने कहा वोट नहीं जाना चाहिए। टीएमसी चीफ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कर रही है।

# Summer Diet Plan: Change your diet in the changing season, give such diet to everyone from children to the elderly.

You are a mother, wife and daughter-in-law. It is your responsibility to take care of everyone's health and now summer has also started. In such a situation, you will have to make changes in your eating habits keeping everyone's health in mind, but how? As the weather changes, it becomes even more important to take care of your health. Therefore, everyone should make necessary changes in their eating habits at this time. In today's busy life, there is a need to be more conscious about health. In such a situation, by including exercise in your daily routine and nutrients in your diet, you can keep your body healthy by increasing your immunity. Generally, the temperature increases significantly during the summer season, due to which many

problems like vomiting, diarrhea and light and easily digestible food. follow a seasonal diet, because it phytochemicals that benefit health. naturally cleanse and heal the body. health, hence include fresh and homeat all. Along with this, also keep some to high temperature in summer, due to which the risk of dehydration supply through proper eating habits. water, mango panna, wood apple help in maintaining proper levels of out of the house, drink water only and have any problem of dehydration. get more amount of nutrients in body and you remain healthy. vegetables, which are a good source we need more water and fruits and Therefore, more fruits and vegetables good to consume watermelon, At the same time, among the keep the body hydrated but also




dehydration arise, hence in this season one should eat Consuming cold liquids is more beneficial. You should contains vitamins, minerals, enzymes, antioxidants and Apart from this, seasonal foods also have the ability to Consuming canned food items is always harmful for made food items in your diet and do not eat stale food important things in mind. Need to stay hydrated - Due excessive amount of water gets released from our body, increases. Therefore, it is necessary to maintain water For this, consume lemon juice, lassi, thandai, coconut sherbet etc. in liquids. These home-made drinks also vitamins in your body. Apart from this, while going keep a water bottle with you. With this you will never Consumption of fruits and vegetables – You should summer food. This provides proper nutrition to the Summer usually increases the supply of fruits and of vitamins, minerals and other nutrients. In summer vegetables also supply this need in abundance. should be consumed in this season. Among fruits, it is cucumber, banana, orange, mango and coconut water. vegetables, tomatoes, carrots, capsicum etc. not only provide essential nutrients. Diet plan for energy - In

summer, we need more energy, so that we can complete our daily activities. . For this, it is important to consume energetic drinks and a balanced diet. It is better to divide the day's diet into parts according to time and take food at the right time, so that you will get enough energy throughout the day as per your need. This diet plan controls the blood sugar level in your body. Millets like jowar, barley and ragi are useful in providing energy and improving the digestive system. Among these, ragi and barley keep the body cool in summer. These grains are rich in important compounds like vitamins, polyphenols, phytochemicals and nutrients like dietary fiber and have very low glycemic index, which is considered ideal for blood sugar. Even though gram is not kept in the category of coarse grains., but it is considered in the category of coarse grains only. Consuming gram or sattu keeps the body cool. In this way, these grains help in strengthening the immunity by protecting the body from many diseases, hence you should keep consuming them in summers. Milk products - In summers, cool milk and milk products, such as Keep consuming curd, buttermilk and lassi. Along with keeping your body cool, they strengthen the immune system by increasing the good bacteria. In summer, children, elderly people and people working in the sun are more adversely affected. Strong sunlight can cause deficiency of water and salt in the body, which causes problems like dehydration, fatigue and low blood pressure. People of all age groups should take care of themselves in summer, because due to increase in temperature and heat, our body goes under stress, which can promote irritability, insomnia, skin sensitivity and vitamin-mineral deficiency. Therefore, you should be fully aware of what changes should be made in the diet of people of different age groups. In the plate of small children: To supply maximum nutrients to the body of children, many types of colorful vegetables should be included in their diet. Include fruits and vegetables. Suitable sources of protein for small children are milk, curd, cheese, eggs and pulses etc., hence include them in their diet. Also keep feeding them dry fruits, so that they can get nutrients in abundance. Children should be encouraged to consume healthy grains such as porridge, rice, rotis and especially coarse grains from an early age, as it is essential for their mental and physical development to get adequate nutrients as they grow older. Adolescents/youth and middle age protein meat, fish, Be sure to give them eggs, pulses, soya, milk products like curd and cheese. Due to this there will be no shortage of protein in their body. Apart from this, include green leafy vegetables and fruits to supply nutritional elements. For fiber and vitamins, it is most important to include grains, such as brown rice, wheat and other coarse grains, such as jowar, millet, barley, ragi, etc. in their diet. For the elderly - People of this age need protein. Include protein sources for fulfillment, such as skimmed milk, curd, raita, buttermilk, cottage cheese, eggs and shelled pulses. Include a variety of seasonal fruits and green vegetables and include grains, such as rice, oatmeal and other grains, for vitamins, minerals and fiber. For them, dinner should be especially light and easily digestible. If possible, make them eat khichdi two-three times a week during this time. What not to eat - Consumption of spicy things should be reduced during the summer season. Do not eat heavy, fried, acidic and stale food. Chaat-chutney, sour foods and khoya dishes sold in the market are often the main causes of food poisoning. Along with this, to protect the body from dehydration in the summer season, avoid excess consumption of tea, coffee or alcohol and also stay away from packaged sugar mixed juices available in the market. Thus, by choosing the right diet in summer, you can make your life healthy and energetic.

# yogasanas daily during Navratri.

Navratri has started from 9th April. Devotees fast during this nine-day festival. Eat fruits for nine days. Summer has started. If you are fasting during this period, drink enough water.



Keep the body hydrated. Apart from this, due to not eating food the body's energy starts decreasing. You can try to keep yourself fresh by eating fruits, but if you want to maintain body energy then you can take help of yoga. Yoga should be done to stay healthy and avoid diseases. Yoga can also provide long-term benefits in keeping the body energetic, fit and active. Know in this article about yogasanas to be done

during fasting during Navratri. Utkatasana Yoga- Chair Pose or Utkatasana Yoga is considered very helpful in keeping the leg muscles healthy and strong. This yoga is considered very beneficial in pumping blood in the body. According to yoga experts, regular practice of this yoga can be very beneficial in keeping the body active throughout the day. Shalabhasana Yoga- The practice of Shalabhasana Yoga is considered to be the best for energizing the body. Practicing this yoga can be very beneficial in strengthening the back, hamstrings and glutes as well as increasing blood circulation. Practicing this yoga asana for 5-10 minutes daily can help in keeping the body active throughout the day. Practice of Pranayam -Pranayam is considered to be the best exercise for the circulation of energy in the body. By making various types of pranayam a part of your daily routine, you can keep yourself energetic throughout the day. Through Pranayama, the circulation of oxygenated blood in the brain can be increased which can help in curing many types of serious problems. Note: This article has been prepared on the basis of suggestions from yoga experts. To know about the correct position of the asana, you can contact a yoga guru.

# You will remain energetic throughout If you want to celebrate the day during fasting, practice these the festival of Baisakhi then adopt these methods

The festival of Baisakhi is about to come. Baisakhi is a festival celebrated with pomp and joy. This festival is celebrated after the harvest in the month of Vaishakh. This year Baisakhi will be celebrated on 13th April. Although Baisakhi is celebrated all over the country, a different



enthusiasm is seen in Haryana and Punjab on Baisakhi. This day is celebrated as New Year in Sikhism. Pujas are organized at home. Go to Gurudwara and do service there along with recitation. If you are celebrating the festival of Baisakhi this time, then you can make it memorable forever in some special way. Some ways to celebrate the festival of Baisakhi are being told here. Taste the delicious dishes - On the occasion of any festival or festival, there is definitely traditional and delicious

dishes. On the occasion of Baisakhi, you can prepare some delicious dishes at home. Keep lunch or dinner something different and special from the everyday meals. You can make two or more types of sweets at home. Invite friends, close ones and relatives for a feast at home. Path or Langar- Path can be organized on the occasion of Baisakhi. You can conduct the recitation at home with family, relatives and friends or attend the recitation in the Gurudwara. On this occasion, langar is organized at various places, where you can go for service with friends and children. Go to Gurudwara - On the occasion of Baisakhi, you can go to any Gurudwara in the city with family, friends and relatives to pay obeisance. Are. Can recite and serve in Gurudwara. Spend some time in the Gurudwara. Go for a walk – Fairs are organized at many places on the occasion of Baisakhi. You can attend Baisakhi fair with children or family. Baisakhi is on weekend, so you can plan a mini trip and go out for a walk.

www.knlslive.com

# success of Crew

Women and their stories have always been unsafe in Indian but some actresses and producers often go beyond this perception and try to bring change. Kareena Kapoor, Kriti Sanon and Tabu's film 'Crew' is an example of this. The film is doing very well at the box office. Now recently, in an interview, Kriti has said that film directors now need to invest a lot on womenoriented films as well. Kriti said in her recent interview, "A film needs to be made to draw h audience to the theatre. It is not very important to play the role of a hero. F o r quite a long time, people have n o t taken t h e risk of embracing femalecentric films like male-centric films. They feel that h audience will not come to the theater and they will not get money. However, now times have changed a n d said this people's thinking has also changed a lot.' Kriti on the achievement of 'Crew' - The actress s e e s the achievement of 'Crew' as an important turning point in Hindi cinema. Talking about the success of the film 'Crew', Kriti said, "This is kind of the beginning. I am hoping for at least a change. People don't have a lot of expectations from such films. People have less faith in things. That belief needs to be strong to change. If you invest as much in a film as you do on Donkey, then obviously women-oriented films will also do well at the 0 about Alia office." Example of 'Gangubai Kathiawadi' - Talking Bhatt's 2022 hit 'Gangubai Kathiawadi' directed by Sanjay women-Leela Bhansali, Kriti said that this film was also a centric film, but even today people want to watch this film. Like it a lot. The film was also a success at the box office. However, now times have changed and people's thinking has also changed lot.' Kriti said this on the achievement of 'Crew' - The actress the sees achievement of 'Crew' as an important turning point in Hindi cinema.

# What did Kiran Rao say on her divorce from Aamir Khan? Told-How does she keep her son Azad away from the headlines?

to be strong to change. If you invest as much in a film as you do on Donkey, then obviously

women-oriented films will also do well at the box office." Example of 'Gangubai Kathiawadi'

Bollywood actor Aamir Khan and his ex-wife Kiran Rao made headlines after announcing their divorce. Kiran Rao was in the news recently for her film 'Laapta Ladies'. Both of them



Talking about the success of the film 'Crew', Kriti said, "This is

beginning. I am hoping for at least a change. People don't have a

expectations from such films. People have less faith in things. That

were seen promoting this film together while raising their son Azad together. After divorce, Aamir and Kiran became good friends and are raising their son together. Kiran recently told why it was important for her to make her divorce public and what was the reason behind keeping Azad away from the limelight. Kiran Rao revealed the reason behind making her divorce public and said, 'It It was a necessary decision, as we realize it in some ways. You know you're in the public

kind of the


belief needs

lot

eye. You are living your life very publicly. What we were doing was completely legal and morally right. In such a situation, it is better to talk openly about it. At the same time, we thought that we should not let people guess about it. He said, 'When it comes to the personal life of any celebrity, how come some people start trolling. Even after you say it, people start explaining its meaning. But when you don't do that, it becomes very easy for people to say nonsense. We have seen how big celebrities are dragged when they are going through troubles and bad times. At the same time, Aamir and Kiran have taken many steps to keep their son Azad away from the limelight. Talking about this, Kiran Rao said, 'Azad is also like this. I have told them that if people ask you for a photo and you agree then say yes and if you don't agree, say no. When we go to the airport, we ask him for a photo, sometimes he says yes, sometimes he says no. It is noteworthy that Aamir Khan and Kiran Rao saw each other after 15 years of marriage. Had decided to separate from. Both of them got married in 2005. At the same time, in July 2021, Aamir and Kiran had announced their divorce.

# 'Producers need to invest 'Audiences will like money in women-oriented Maidaan', claims Sunil films too', Kriti said on the Shetty, wishes the film team by sharing the post

The film 'Maidan' based on the life of coach Syed Abdul Rahim, who showed the golden era of Indian football, is being discussed everywhere. Recently, the makers of the film had screened the film, which was attended by many big Bollywood celebrities. In this sequence, recently, actor Sunil Shetty has shared a post and wished the team of the film all the best. Let us know what the actor has said. Sunil Shetty had written a lovely note on his ex-handle dedicating it



entire team of 'Maidan'.  $\mathbf{H}$ shared t h e poster of the film, in which Ajay Devgan is seen with a bag and umbrella in his hand. In t h i s note, he gave a

glowing review of the film and also claimed that the film will also get a positive response from the audience. Apart from this, he has congratulated director Amit Ravindranath Sharma and producer Boney Kapoor. Sunil Shetty extended his best wishes - He wrote, "Hey AJ! Rumor on the street is that you knocked it out of the park with the field! Hearing some great reviews! Many congratulations to Ajay, Boney sir and Amit Sharma! #Maidan will be a hit at the box office. Responding to his post, Boney Kapoor said, "Thank you Sunil Shetty for your good wishes." These actors will be seen Ajay Devgan, Janhvi Kapoor, Arjun Kapoor, Sanya Malhotra, Mannara Chopra, Javed Akhtar, wife Shabana Azmi, Archana Gautam and others were present at the star-studded screening of Maidan. Maidaan is a historical period drama based on the era of 1951–1962 and is based on the life of Indian football coach Syed Abdul Rahim. Directed by Amit Ravindranath Sharma, the film also stars Priyamani, Gajraj Rao, Rudranil Ghosh, Madhur Mittal and others in lead roles.

# Raveena Trimbakeshwar temple with daughter Rasha, shared pictures on social media

Actress Ravani Tandon along with daughter Rasha Thadani visited Trimbakeshwar Shiv Temple and Shri Ghrishneshwar Temple on Wednesday. After darshan, the actress offered prayers. Raveena shared pictures of the temple darshan on social media. Raveena Tandon



has shared pictures from her official Instagram account. In these, she is seen matching clothes with her daughter. Raveena has written the caption with the pictures, 'Om Namah Shivay'. It was pleasant

experience visiting Trimbakeshwar Shiv Temple and Shri Ghrishneshwar Temple. In the pictures shared, Raveena Tandon is seen sitting in a car in the first picture. In the picture, Raveena has applied Tripund on her forehead and she is smiling. In another picture she is standing in front of the temple with her daughter Rasha. Both mother and daughter are seen in traditional attire. Raveena and Rasha are looking very beautiful in the pictures. Raveena Tandon is often seen spending time with her daughter. She often visits religious places with her daughter. Apart from this, recently Raveena attended Taylor Swift's function with daughter Rasha, whose pictures and videos she shared with the fans. Talking about work front, the actress was recently seen in the film 'Patna Shukla'. This courtroom drama series was released on OTT. In this, Raveena Tandon was seen in the role of a lawyer. In the film, the actress is seen fighting for the truth while also managing her family. This film was produced by Arbaaz Khan.